

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन में आज दिनांक:- 16.09.2022 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा पर्चा सट्टा की खाई बाडी करने वाला अभियुक्त अलीशेर पुत्र अच्छन निवासी मौ0 लकडा इकरार नगर थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा को मय पर्ची सट्टा, 1570/- रुपये नगद व 01 तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा अपने फोन से अलग अलग इन्स्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील मैसेज व अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाला अभियुक्त अरुण कुमार पुत्र ग्रंथ सिंह निवासी नजरपुर पट्टी थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना नौगावां सादात पुलिस द्वारा फेसबुक अकाउंट से पोस्ट कर हिंदू धर्म समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य धार्मिक व अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाशित करने वाला अभियुक्त गुलाम नबी पुत्र गुच्छन अली निवासी मोहल्ला हाता कस्बा व थाना नौगांवा सादात जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना नौगावां सादात पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त 1. दिनेश उर्फ गुड्डू पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम जलालपुर कला थाना रजबपुर अमरोहा 2. देवेन्द्र पाल पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नगलिया शाहपुर थाना हजरत नगर गढ़ी जिला संभल 3. मोहित पुत्र ओमवीर सिंह निवासी ग्राम जलालपुर कला थाना रजबपुर जनपद अमरोहा को मय चोरी की एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस रजि0 नं0- UK 18 G 2489 सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा वारन्टी अभियुक्त वसीम पुत्र शब्बीर निवासी मौ0 चामुण्डा कस्बा धनौरा जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
- थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा बलवा करने, जान से मारने का प्रयत्न करने, आपराधिक षडयंत्र व मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्ता नीतू पुत्री कलुवा नि0 शेरपुर थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना बछरायूं पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त साजिद पुत्र लकी निवासी मौ0 परिजादगान कस्बा व थाना बछरायूं जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
- थाना गजरौला पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त कृष्णा सिंह पुत्र चरन सिंह निवासी ग्राम फाजलपुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
- थाना हसनपुर पुलिस द्वारा मारपीट, गाली गलौच व गैर इरादतन हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त सालिम पुत्र रफीक अहमद निवासी लालबाग बजरिया थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रहरा पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त अतर सिंह पुत्र छतर सिंह निवासी ग्राम कसाईपुरा थाना रहरा जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
- जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 08 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा 04 व्यक्ति, थाना डिडौली पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना बछरायूं पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना गजरौला पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया।